



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 वैशाख 1946 (श10)

(सं0 पटना 418) पटना, मंगलवार, 7 मई 2024

शिक्षा विभाग

अधिसूचना

7 मई 2024

सं0 18/वि०-1-03/2023-527—जबकि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने “शिक्षा के एकीकृत डेटा लाने” के लिए “ई-शिक्षाकोष” नामक एक ऑनलाईन पोर्टल बनाने की पहल की है। ई-शिक्षाकोष एक एकल पोर्टल है जो शिक्षा विभाग, बिहार सरकार की सभी जरूरतों को पूरा करेगा। बिहार की विद्यालय शिक्षा से संबंधित यह प्रणाली राज्य के विद्यालय शिक्षा प्रणाली (0-12) के सभी महत्वपूर्ण हितधारकों के “शुरु से अंत तक” जीवन चक्र को पूरा करेगा।

जबकि, विभाग ने सभी डी0बी0टी0 से संबंधित योजनाओं यथा ,मुख्यमंत्री बालक/बालिका साईकल योजना, बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना, मुख्यमंत्री बालिका इंटरमीडिएट प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री बालक/बालिका प्रोत्साहन योजना (मैट्रिक, प्रथम श्रेणी) एवं छात्रवृत्ति आदि को केवल ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर उपलब्ध ऑकड़ों के आधार पर क्रियान्वित करने का निर्णय लिया है।

जबकि, भारत सरकार के द्वारा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापांक-File No. 13(18)/2022-EG-II, दिनांक-03.05.2024 के माध्यम से सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन (समाज, कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियमावली, 2020 के नियम-05 सह पठित आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों, लाभों और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा-4 की उप धारा-4 की कंडिका-ख की उपकंडिका-ii के तहत हाँ/ना अथवा/और e-KYC का प्रयोग कर ई-शिक्षाकोष पोर्टल अंतर्गत सरकारी विद्यालयों में नामांकित विद्यार्थियों के सत्यापन के लिए आधार प्रमाणिकरण के प्रयोग हेतु भारतीय विशिष्ट पञ्चान प्राधिकरण की सहमति से अवगत कराया गया है।

अतः उक्त अधिनियम की धारा-4 की उप धारा-4 की कंडिका-ख की उपकंडिका-i, धारा-4 की उप धारा-4 की कंडिका-ख की उपकंडिका-ii, अथवा आधार अधिनियम की धारा-7 एवं उक्त नियमावली के नियम-5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में भारत सरकार द्वारा अधिकृत होने के उपरांत, बिहार सरकार इस संबंध में शिक्षा विभाग को ई-शिक्षा कोष पोर्टल के तहत सरकारी विद्यालयों में नामांकित विद्यार्थियों के सत्यापन के लिए, स्वैच्छिक आधार पर, हाँ/ना अथवा/और e-KYC का उपयोग कर आधार सत्यापन हेतु अधिकृत करता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
के0के0 पाठक,
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

Education Department**Notification****The 7th May 2024**

No. 18/वि०-1-03/2023-527—Whereas, Education Department, Government of Bihar has taken an initiative to create a online platform called “e-ShikshaKosh” for “Bringing Integrated Data to Education”. E-Shikshakosh is a single platform that will cater all the needs of the Education Department, Govt. of Bihar related to School Education. The system will cater “end-to-end” life cycle of all the significant stakeholders of the State School Education System (0-12).

Whereas, Department has decided to execute all DBT related schemes like, Mukhyamantri Balak/Balika Cycle Yojana, Bihar Shatabdi Mukhyamantri Balika Poshak Yojana, Mukhyamantri Kishori Swashtya Karyakarm Yojana, Mukhyamantri Balika Intermediate Protsahan Yojana, Mukhyamantri Balak/Balika Protsahan Yojana (Matric, 1st Div.) and Scholarship etc. based on the data available on e-Shikshakosh Portal only.

Whereas, The Government of India has vide its Office Memorandum, Ministry of Electronics and Information Technology, File no. 13(18).2022-EG-II, dated 3rd May, 2024, conveyed the approval of the Unique Identification Authority of India to the Department of Education under the Govt. of Bihar, for using Aadhaar Authentication on voluntary basis for Authentication of students enrolled in government schools of Bihar under e-Shikshakosh portal, using Yes/No or/and e-KYC authentication facility, in terms of Rule-5 of the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020 read with sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section 4 of Section 4 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016.

Now, therefore in pursuance of the powers conferred by Sub-clause (i) of clause (b) of sub-section (4) of Section-4 or Sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of Section-4 or 7 of the Aadhaar Act and Rule-5 of the said Rules, the Government of Bihar, being authorized by the Government of India in this behalf, hereby authorize the Department of Education to perform Aadhaar Authentication, on voluntary basis, for Authentication of students enrolled in government schools of Bihar under e-Shikshakosh portal using Yes/No or/and e-KYC authentication facility.

By thy Order of the Governor of Bihar,**K.K. Pathak,***Additional Chief Secretary to the Government.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 418-571+3000-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>